



Telephone : 044 – 28519654, 28415702  
E-Mail : investor@iobnet.co.in

## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

### Indian Overseas Bank

Central Office: P.B. No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002  
**Investor Relations Cell**

IRC/ 161 /2021-22

04.08.2021

The General Manager,  
Department of Corporate Services  
**BSE Limited**  
Floor 1, P.J. Towers, Dalal Street  
**Mumbai 400 001**

The Vice President  
**National Stock Exchange Ltd**  
"Exchange Plaza", C-1 Block G  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
**Mumbai – 400 051**

Dear Sir/Madam,

**Newspaper Publication**  
**Financial Results for the Quarter ended 30.06.2021**

We refer our letter No. IRC/158/2021-22 dated 03.08.2021 informing the Standalone Reviewed (Unaudited) Financial Results of the Bank for the quarter ended 30<sup>th</sup> June 2021.

In this regard, we have published Notice to Shareholders in three Newspapers viz. Dinamani (Tamil), Business Standard (Hindi) and Business Standard (English) on 04.08.2021 for the information of our shareholders. We enclose newspaper publication of the Notice to Shareholders.

Please take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully,

*S Nandakumaran*  
4/8/21

**S Nandakumaran**  
**DGM & Company Secretary**





<b>Indian Overseas Bank</b> Inspection Department Central Office: 763 Anna Salai, Chennai-600002
<b>INDIAN OVERSEAS BANK (IOB) invites</b> <b>REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)</b> <b>FOR CONDUCT OF CONTINUOUS</b> <b>FUNCTIONAL AUDIT OF CBS</b> <b>(CORE BANKING SOLUTION)</b>
The RFP document for the above tender is available at our bank's Website and E-tender portal <p>https://www.iob.in/tenderlist.aspx</p> https://iobtenders.auctiontiger.net/EPROC .
The last date for submitting Bid proposal is 20 Aug 2021 (1700 hrs) For RFP amendments/clarification/ updates, if any, kindly visit our website.
<b>Hindustan Steelworks Construction Limited</b> (A Government of India Undertaking) A Subsidiary of NBCC (India) Limited 5/1, Commissariat Road, Hastings, Kolkata-700022 CPG Division
<b>EXPRESSION OF INTEREST</b> No. HS/CLC/CPG/EO/CONS/2021/6-217 Online Expression of Interest is invited for 'Prequalification/Enlistment for Providing Architectural & Engineering Consultancy Services for Construction of NVS/KVS School Campuses across India for various groups up to Rs. 100 Cr. EOJ documents/Corrigendum (if any) etc. are available at http://eprocure.gov.in/eprocure/app. Last date of online submission: 16.08.2021 Advt. No. 2021-22/e-217           Head (CPG) CIN No. U27310WB1964 GOI026118 Website: www.hsclindia.com

<b>पंजाब नैशनल बैंक</b> <p><b>punjab national bank</b></p> <p><i>...भारोसे का प्रतीक !</i></p> <p><i>...the name you can BANK upon !</i></p>
<p>सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्र. का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 (ई—मेल: itdhw@pnb.co.in, दूरभाष: 011—23311452</p>
<p><b>निविदा सूचना</b></p> <p>पंजाब नेशनल बैंक पात्र बोलीदाताओं से, GeM पोर्टल (Government e Marketplace) के माध्यम से 52 एलटीओ टेम्पों के साथ 52 बारकोड की खरीद के लिये ऑनलाइन बोली आमंत्रित करता है।</p> <p>इच्छुक बोलीदाता विस्तृत निवेदन प्रस्ताव दस्तावेज वैंबसाइट <b>https://gem.gov.in/</b> पर देख सकते हैं।</p> <p>ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तिथि 17.08.2021 को 16.00 बजे तक है।</p> <p><b>सहायक महाप्रबंधक</b></p>

<b>पंजाब नैशनल बैंक</b> <p><b>punjab national bank</b></p> <p><i>...भारोसे का प्रतीक !</i></p> <p><i>...the name you can BANK upon !</i></p>
<p>सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्र.का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 (ई—मेल: itdhw@pnb.co.in, दूरभाष<span> </span>: 011—23311452</p>
<p><b>निविदा सूचना</b></p> <p>पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी, 5, संसद मार्ग बिल्डिंग, नई दिल्ली में 24x7 घंटे मैनिंग के साथ ऑटोमेटिक फायर अलार्म डिटेक्शन और FM-200/NOVEC-1230 फायर सप्रेसन सिस्टम के संचालन, रखरखाव और परीक्षण के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के लिए आर. एफ. पी. के लिए पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोली (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।</p> <p>इच्छुक बोलीदाता विस्तृत आरएफपी दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी ई-प्रोचोरमेंट वेबसाइट <b>https://etender.pnbnet.in</b> या <b>https://www.pnbindia.in</b> पर जा सकते हैं। हमारे ई-प्रोचोरमेंट सिस्टम के माध्यम से बोलियों को डिजिटल सर्टिफिकेट (हेस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन) का उपयोग करके ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन बोली की तैयारी और हेश सबमिशन की अंतिम तिथि <b>23.08.2021, 1600 बजे</b> और बोली पुन: एन्क्रिप्शन और बोली की हार्ड कॉपी जमा करने की <b>24.08.2021, 1400 बजे</b> तक है।</p> <p>आरएफपी से संबंधित सभी भावी संचार हमारी वेबसाइट <b>https://etender.pnbnet.in</b> और <b>https://www.pnbindia.in</b> पर अपलोड किए जाएंगे।</p> <p><b>सहायक महाप्रबंधक</b></p>

<b>इण्डियन ओवरसीज़ बैंक</b>				
<b>तुलनपत्र प्रबंधन विभाग</b>				
<b>केंद्रीय कार्यालय:763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002</b>				
<b>इण्डियन ओवरसीज़ बैंक</b>				
<b>30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डअतोन अ-लेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम (₹. लाख में)</b>				
<b>क्र.सं.</b>	<b>विवरण</b>	<b>30.06.2021 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)</b>	<b>31.03.2021 को समाप्त वर्ष (समीक्षित)</b>	<b>30.06.2020 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)</b>
1.	परिचालन से कुल आय	<b>5,15,503</b>	<b>22,52,455</b>	<b>5,23,363</b>
2.	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले, अपवाद और/या असाधारण मद)	<b>33,386</b>	<b>83,971</b>	<b>12,463</b>
3.	कर से पहले अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	<b>33,386</b>	<b>83,971</b>	<b>12,463</b>
4.	कर के बाद अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के बाद)	<b>32,664</b>	<b>83,147</b>	<b>12,069</b>
5.	अवधि के लिए कुल समकित आय (कर के बाद) अवधि के लिए समकित लाभ/(हानि) और अन्य समकित आय (कर के बाद )	-	-	-
6.	इक्विटी शेयर देवी	<b>18,90,241</b>	<b>16,43,699</b>	<b>16,43,699</b>
7.	फिक्स्ड वर्क के शेयर/निवेश तुलन वष में दर्शाती नहीं अग्रद्वितीय (तुलनात्मक अग्रद्वितीय के अभाव)	-	-	(1,71,264)
8.	प्रति शेयर लाभ (वर्षिक ₹: 100 पर (समत १ समकित हो नीचे परिवर्तन हेतु: 1. मूल: 0.19 2. घटायमा गया: 0.19	<b>0.19</b>	<b>0.51</b>	<b>0.07</b>
2. घटायमा गया:	<b>0.19</b>	<b>0.51</b>	<b>0.07</b>	
नोट:				
1. उपर्युक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास आज की दीर्घतम तक दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का साह है। अ- लेखापरीक्षित (समीक्षित) तिमाही वित्तीय परिणाम के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की (बीएसई <span> </span> : www.bseindia.com और एनएसई <span> </span> : www.nseindia.com ), वेबसाइटों के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध है।				
2. नए भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एंग्लो) वर्तमान में भारत में बैंकों पर लागू नहीं हैं।				
व्या. भं. (एन बीसीटी) (अल्प मात्रा बीवस्वत) (एन प्रिजि सेक्युरिटी) दिनांक: ०3.08.2021 कार्यालयक निदेशक कार्यालयक निदेशक प्राध निदेशक व मुख कार्यालयक अधिकारी				

<b>रबड प्रोडेक्ट्स लिमिटेड</b>
<b>निगमित पहचान संख्या (CIN)<span> </span>:</b> L25100MH1965PLC013379
<b>पंजीकृत कार्यालय<span> </span>:</b> प्लॉट सी, रोड नं. 8, वाग्ले इंडस्ट्रियल एस्टेट, थारणे — 400 604 महाराष्ट्र, इंडिया
<b>टेली<span> </span>:</b> 91–22–2582 2553 <b>फैक्स<span> </span>:</b> 91–22–2582 0876
<b>वेबसाइट<span> </span>:</b> www.rubpro.com <b>ई-मेल<span> </span>:</b> rpl@rubpro.com

जो कोई इससे संबंधित हो, उसे यह सूचित किया जाता है कि, रबड प्रोडेक्ट्स लिमिटेड ("**कंपनी**") बियरिंग CIN-L25100MH1965PLC013379 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 09.12.1965 को निगमित थी और 04.07.1994 तक बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध थी और वहींमान में इसके शेयर 19.07.2017 से ट्रेडिंग के लिए बंद हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीललेट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली (**एनसीएएलटी**) आदेश दिनांक 11.06.2019 के साथ पठित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई बैंच (**एनसीएलटी**) आदेश दिनांक 19.02.2019 के अनुपालन में, कंपनी ले 19 मई, 2020 को बीएसई द्वारा विधिवत अनुमोदित और एनसीएलटी द्वारा वर्णित अनुसार नए सात प्रमोटर शेयरधारकों को सभी अधिकारों व सुविधाएं और जारी व आवंटित नए रु. 10 प्रत्येक के 40,88,400 इक्विटी शेयर सहित सभी पूर्व शेयरधारकों के रु. 10 प्रत्येक के 40,88,400 इक्विटी शेयरों को कैंसल कर दिया है।

नए प्रमोटर्स / प्रबंधन के अधिग्रहण के बाद से ही कंपनी घाटे में है। कंपनी भारी मात्रा में हानि उठा रही है और इसके शुद्ध मूल्य में काफी गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, कंपनी की कोई जन शेयरधारिता भी नहीं है और इसकी 100 प्रतिशत शेयरधारिता नए प्रमोटर्स शेयरधारकों अर्थात् समरवाल ग्रुप की है और इसलिए प्रमोटर्स /अधिग्रहणकर्ताओं का मानना है कि बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग एकमात्र व्यवहारिक वित्तीय कदम है।

इसके परिणामस्वरूप, सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2009 (10 जून, 2021, सेबी (सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2009 को रद्द कर दिया गया है इसके बजाय सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2021 को अधिपुष्टित किया गया है) के विनियम 25ए के तहत स्वेच्छिक डिलिस्टिंग के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं और अनुपालनों से कुछ छूट /रियायत देने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) को आवेदन किया गया है। सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2021 के विनियम 42 के साथ पठित सेबी अधिनियम की धारा 11(1) और 11बी के तहत सेबी इसके आदेश नं-WTM/SKM/CFD/DCR2 /41/2020-21 दिनांक 15 जुलाई, 2021 को बाहर के अवसर, न्यूनतम जन शेयरधारिता की पहुंच की आवश्यकता, एसक्रो अकाउंट के प्रावधानों, रिजर्व बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में भागीदारी के लिए शेयरधारिता का अधिकार आदि, उसमें वर्णित शर्तों का विषय के साथ डील करने जैसी सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम 2021 की अनुपालनका से कुछ छूट / रियायतें दी गई हैं।

कंपनी 100 प्रतिशत प्रमोटर आयोजित है और बीएसई लिमिटेड से डिलिस्टिंग करना चाहती है केवल एक ही स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सेबी आदेश में वर्णित शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध हैं। नए प्रमोटर शेयरधारकों का विवरण बीएसई वेबसाइट **www.bseindia.com** के शेयरधारिता टैब में और कंपनी की वेबसाइट **www.rubpro.com** पर उपलब्ध है।

डिलिस्टिंग की प्रक्रिय के लिए आवश्यक आपाचारिताएं सेबी आदेश और सेबी (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021 में दी गई शर्तों, निर्देशों के अनुसार दी गई हैं। सेबी आदेश सेबी की वेबसाइट **www.sebi.gov.in/enforcement/orders** और बीएसई की वेबसाइट **www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.rubpro.com** पर उपलब्ध है।

<b>रबड प्रोडेक्ट्स लिमिटेड</b>
<b>हस्ता./—</b>
<b>दिनांक<span> </span>: 02.08.2021</b>
<b>स्थान<span> </span>: मुंबई</b>
<b>रबड प्रोडेक्ट्स लिमिटेड</b>
<b>जगदीप सिंह समरवाल</b>
<b>प्रमोटर</b>

# आईबीसी का आकर्षण हो रहा है कम

रुचिका चित्रवंशी

नई दिल्ली, 3 अगस्त

संपत्ति के खराब मूल्यांकन और कमजोर आर्थिक हालात के साथ साथ कोविड संबंधी चूक में दिवाला कार्रवाई नहीं किए जाने जैसे कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऋणदाता दिवाालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का विकल्प चुनने से कतरा रहे हैं। यह आकलन उद्योग के विशेषज्ञों ने जाहिर किया है।

भारतीय दिवाालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीआई) ने खुलासा किया कि 24 मार्च को निलंबन हटाए जाने के बाद जून तक राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में स्वीकार किए गए मामलों की संख्या 200 से भी कम है।

खेतान एंड कंपनी में पार्टनर कुमार सौरभ ने कहा, ‘जैसे जैसे आईबीसी को प्रक्रिया परिवर्तन हुई है ऋणदाताओं ने प्रक्रिया को लेकर एक समझ विकसित कर ली है और वे पहले से अधिक करीब से आईबीसी के जरिये किसी संपत्ति के समाधान की संभावना का आकलन कर सकते हैं।’

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऋणदाताओं को संहिता से बाहर स्विस चैलेंज प्रक्रिया (बोली की एक प्रक्रिया जिसमें समझौते को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक आवेदक मौजूदा अर्थात् उद्योग की तुलना में बेहतर की पेशकश करता है) के जरिये तेजी से समाधान की उम्मीद नजर आती है तो वे आईबीसी जैसी अदालत की निगरानी वाली प्रक्रिया को नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। सौरभ ने कहा, ‘संपत्ति का मूल्यांकन अहम है। जब

ऋणदाताओं को आईबीसी के

माध्यम से समय अधिक लगने की वजह से मूल्य में कमी आने की संभावना नजर आती है तो उनकी ओर से दिवाालिया पूर्व के विकल्पों पर विचार करने की संभावना बनने लगती है।’ ऋणदाताओं ने कोविड से प्रभावित खातों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जून तक उपलब्ध कराई गई एक बारगी पुनर्गठन का भी सहारा लिया है और आईबीसी में जाने से खुद को रोका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजारों के परिपक्व होने और समाधान के लिए निजी ऋण जैसे उपलब्ध हो रहे अधिक उपायों से देनदार और प्रमोटर भी समाधान के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं और आईबीसी को अंतिम आश्रय के तौर पर देख रहे हैं।

हालांकि, बहुत से लोग उम्मीद

कर रहे हैं कि एक बार एनसीएलटी के पीठों को मजबूत किए जाने के बाद प्रक्रिया की गति जोर पकड़ेगी और आवेदन अधिक तेजी से निपटाए जाएंगे। कानूनी फर्म एमवी किनी में पार्टनर राज भल्ला ने कहा, ‘हो सकता है कि ऋणदाता इस वजह से नई याचिका दायर करने से बच रहे हों कि पीठें लंबित मामलों की भारी संख्या के कारण लंबी तारीखें दे रहे हों और ऋणदाता एनसीएलटी के सामान्य गति में आने और कार्य करने का इंतजार कर रहे हों।’ यह उम्मीद कहते हुए कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय हई सुनिश्चित करेगा कि न्यायधिक सदस्यों के पद भरे रहें, कुछ आईबीसी वकील मानते हैं कि 31 मार्च के बाद के चूककर्ताओं के खिलाफ आवेदन दायर करने की शुरुआत अब से दो से तीन महीनों बाद हो सकती है।

## पीएसओ के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किए नियम

**बीएस संवाददाता**

मुंबई, 3 अगस्त

**भारतीय रिजर्व बैंक** (आरबीआई) ने गैर बैंक भुगतान व्यवस्था प्रदाताओं (पीएसओ) द्वारा निपटान संबंधी गतिविधियों और आउटसोर्सिंग भुगतान के जोखिम कम करने के लिए न्यूनतम मानकों का एक ढांचा पेश किया है, जिसका उन्हें 31 मार्च, 2022 तक अनुपालन करना होगा।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों को आउटसोर्सिंग के लिए पीएसओ को बोर्ड से मंजूर की गई नीतियां बनानी होंगी। पीएसओ का बोर्ड आउटसोर्सिंग नीति, रणनीतियों और व्यवस्थाओं की समय समय

पर समीक्षा करेगा, जिससे उनका महत्त्व, सुरक्षा और मजबूती बनी रहे।

मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा है, पीएसओ जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन और निर्णय लेने संबंधी कामों जैसे केवाईसी मानकों का अनुपालन जैसे प्रबंधन कार्यों की आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते।

इसके अलावा आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर विचार या उसके नवीकरण के समय पीएसओ को इस तरह का समझौता करना होगा कि आउटसोर्स की हुई गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहे और हस्तक्षेप करने का अधिकार हो।

## मग्न में भी बढ़ा एमएसएमई निवेश का दायरा

केंद्र सरकार के जुलाई 2020 के निर्णय को प्रभावी बनाते हुए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भी लघु सूक्ष्म एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के निवेश का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा प्रावधानों के तहत जहां एमएसएमई के लिए 10 करोड़ रुपये के संयंत्र और पांच करोड़ रुपये के निवेश वाले उद्योग हो इस दायरे में आते हैं वहीं नए प्रस्तावों के मुताबिक 50 करोड़ रुपये के संयंत्र और 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले उद्योगों को एमएसएमई की श्रेणी में रखने का निर्णय ले लिया गया है। *बीएस*

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बनाया जाए एनसीएलटी का सदस्य : समिति

**देव चटर्जी**

मुंबई, 3 अगस्त

**बैंकों** की रिकवरी में कमी और पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देरी को देखते हुए लोकसभा की वित्त मामलों पर बनी स्थाई समिति ने पूरी आईबीसी (दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता) प्रक्रिया में सुधार करने की सिफारिश की है। समिति ने कर्जदाताओं द्वारा अधिकतम बोलीकर्ता के चयन के बाद किसी भी बोली को खारिज करने और याचिकाएं कम करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है।

अपनी रिपोर्ट में समिति ने पाया कि इस समय एनसीएलटी में 71 प्रतिशत मामले 180 दिन से ज्यादा पुराने हैं, जितने वक्त में समाधान का प्रावधान किया गया था। समिति के मुताबिक इससे इस संहिता के मूल उद्देश्य से विचलन का पता चलता है। संहिता के तहत चूककर्ताओं को अदालत में ले जाने के बाद इस समय भारत के बैंकों का 9.2 लाख करोड़ रुपये एनसीएलटी में अटका हुआ है।

दूरी प्रक्रिया के मूल्यांकन पर जोर देते हुए समिति ने कहा है कि नुकसान की मात्रा (हेयरकट) के लिए मानक तय करना अहम है, जो वैश्विक मानकों के मुताबिक हो क्योंकि तमाम मामलों में यह 95 प्रतिशत से ज्यादा है।

समाधान पेशवरों (आरपी) की भूमिका पर समिति ने कहा कि आरपी के लिए पेशेवर स्व नियामक

होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) की तरह काम करे। समिति ने सिफारिश की है

कि समाधान पेशेवरों का संस्थान बनाया जा सकता है, जो आरपी के काम काज का नियमन और उन पर नजर रख सके, जिससे एक उचित मानक हो और साफ सुथरा स्वनियमन हो। एनसीएलटी में देरी के बारे में समिति ने कहा है कि एनसीएलटी मामलों को स्वीकार करने में बहुत वक्त लेता है और इस अवधि के दौरान कंपनी चूककर्ता मालिक के नियंत्रण में बनी रहती है वह वैल्यू शिफ्टिंग, फंड डायवर्जन और संपत्तियों का स्थानांतरण कर सकता है। समिति ने सिफारिश की है, ‘एनसीएसली को चूककर्ताओं को 30 दिन के भीतर स्वीकार करना चाहिए और इस समयवधि के भीतर नियंत्रण का हस्तांतरण करना चाहिए।’

समिति ने पाया कि जब आमंत्रित बोलीकर्ताओं को समाधान योजना पेश करने को कहा जाता है और जब सीओसी द्वारा समाधान योजनाओं को मूल्यांकन किया जाता है तो अचानक अन्य बोलीकर्ता सामने आ सकता है और अपनी समाधान योजना पेश करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ये बोलीकर्ता सबसे बड़ी बोली (एच-1) के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद उसके बाद एक अर्वांचित प्रस्ताव से बड़ी बोली पेश करते हैं,

जो निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद आती है। इस समय सीओसी को देरी से बोली को स्वीकार करने को चाहिए।’

समिति ने कहा है कि जिससे समाधान योजना पेश करने को कहा जाता है और जब सीओसी द्वारा समाधान योजनाओं को मूल्यांकन किया जाता है तो अचानक अन्य बोलीकर्ता सामने आ सकता है और अपनी समाधान योजना पेश करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ये बोलीकर्ता सबसे बड़ी बोली (एच-1) के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद उसके बाद एक अर्वांचित प्रस्ताव से बड़ी बोली पेश करते हैं, जो निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद आती है। इस समय सीओसी को देरी से बोली को स्वीकार करने को

लेकर उल्लेखनीय अधिकार दिए गए हैं और इन अर्वांचित बोलियों को वजह से पर्याप्त देरी होती है।’

इसके अलावा समिति ने सिफारिश की है कि आईबीसी में संशोधन की जरूरत है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान इस तरह की देरी से बोली को अनुमति न हो। समिति ने कहा है कि एनसीएलटी में फैसला किए गए मामलों के खिलाफ एनसीएलएटी और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। ऐसे में यह अहम होगा कि एनसीएलटी सदस्यों में उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी लोग हों। समिति का मानना है कि एनसीएलटी में न्यायिक सदस्य कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायधीश के स्तर का होना चाहिए, जिससे प्रक्रिया संबंधी अनुभव व ज्ञान का लाभ मिल सके।

यह रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई। इसमें कहा गया है कि वित्तीय कर्जदाता 4,356 कंपनियों को आईबीसी के तहत एनसीएलटी में ले गए हैं, जिससे 6.77 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हो सके वहीं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स 8,336 कंपनियों से अपने 78,000 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए न्यायालय की शरण ली है। 266 मामलों में कंपनियां खुद एनसीएलटी में पहुंची हैं, जो 52,000 करोड़ रुपये कर्ज के पुनर्भुगतान में असफल रही हैं।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि रिकवरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस अवस्था में कंपनी आईबीसी में आई है।

### वृद्धि की संभावनाओं से बढ़ रहा बाजार

**बीएस संवाददाता**

नई दिल्ली, 3 अगस्त

**वित्त** मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में कहा कि सरकार के नीतिगत समर्थन और भविष्य में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि शेयरों में उतार-चढ़ाव ज्यादा मूल्यांकन की वजह से था।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने राय्यसभा में कहा, ‘शेयर बाजार के सूचकांकों में तेजी प्राथमिक रूप से भविष्य की आर्थिक वृद्धि की उम्मीदों की वजह से है। बहरहाल स्टॉक मार्केट पर आर्थिक शोषों से पता चलता है कि शेयर बाजार के संकेतकों का ज्यादा मूल्यांकन किया गया है।’

## बीएस सूडेकू 4117

				7		6
5				3		
	3	2			9	
3	4					
	5	6			7	4
			6		1	
6	7	1	4			1
				5		2

## परिणाम संख्या 4116

9	4	8	3	2	7	5	1	6
1	5	7	8	6	4	9	2	3
6	2	3	9	1	5	7	4	8
4	7	6	1	5	8	3	9	2
3	9	1	2	4	6	8	5	7
5	8	2	7	3	9	1	6	4
2	1	5	6	7	3	4	8	9
8	3	4	5	9	2	6	7	1
7	6	9	4	8	1	2	3	5

<b>कैसे खेलें?</b>	<b>मध्यम</b>
हर, रो, कॉलम और 3 के बाईं 3 के बाँक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।	★ <p>★</p> ★

<b>कॉटन यार्न</b> <span> </span> : (कि लो): कोर्डेड वार्प: (10/1) 115/120, (20/1) 160/165, (40/1) 270/280, (60/1) 300/310
<b>देसी धी</b> <span> </span> : (प्रति लीटर): अमूल 440, (किलो): अरुम 382, गोकुल 490, परम प्री. 445, मधु सुधन 445
<b>सीमेंट</b> <span> </span> : (50 किलो/53 ग्रेड): अल्ट्राटेक 380, एसीसी 380, वासव दत्ता 360, अम्बुजा 380
<b>रसायन</b> <span> </span> : (एफओआर मुंबई) टेपस अतिरिक्त: कोस्टिक सोडा प्लेक (50 किलो) 1365/1375, सोडा एश (50 किलो) 1285/1300, टिटेनियम डइऑक्साइड (किलो): टैटीके 180/185, चीन 160/165
<b>इंधन</b>

जिएसटी अतिरिक्त: किराना (किलो) 1285/1300, टिटेनियम डइऑक्साइड (किलो): टैटीके 180/185, चीन 160/165

17000/18000, खसखस 1300/1550, बड़ी इलायची 550/575, इलायची हरी 1200/1800, लौंग 550/600, दालचीनी 280/300, जायफल 725/800, जायत्री कोचीन 750/800, सिंगापूर 2025/2100, अजवायन मीडियम

**IEX INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED**  
CIN: L74999DL2007PLC277039  
Regd. Office: 1st Floor Unit No. 1, 14(a), Avanta Business Centre, Southern Park, D-2, District Centre, Saket, New Delhi-110017, India

**PUBLIC NOTICE**  
15th ANNUAL GENERAL MEETING INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED

The 15th (Fifteenth) Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of the Members of the Indian Energy Exchange Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 02, 2021 at 12:00 noon through VC/OAVM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM, along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21, will be sent to all those members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent/Depositories/Depository Participants. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website at www.ixindia.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Registrar & Transfer Agent ("RTA") i.e. https://evoting.kfintech.com.

The VC/OAVM facility is being availed by the Company from the KFin Technologies Private Limited. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining and the manner of participation in the AGM are provided in the Notice of the AGM.

Members will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business, as set forth in the Notice of the AGM, through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialised mode, physical mode and members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the meeting.

Members are requested to contact the Depository Participants, in case of shares held in electronic form or KFinTech, in case the shares are held in physical form, for validating/updating their email address and mobile numbers. Members who have not registered their e-mail address may temporarily get their email address and mobile number registered with KFinTech, by visiting the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx. In case of any queries, Members may write to inward.ris@KFinTech.com. Alternatively, Members may send an e-mail request to the email id inward.ris@KFinTech.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of Share Certificate in case of physical folio.

The Board of Directors at its Meeting held on July 22, 2021, has recommended a Final Dividend of Rs. 1.5/- per share of face value of Re. 1 each. The Record date for the purpose of final dividend for FY 2020-21 is Friday, August 20, 2021. The final dividend, if approved, by the Members at the AGM, will be paid electronically to Members who have updated their bank account details for receiving dividend through electronic means. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts will be sent to them subject to availability of the postal services. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with KFinTech, where the shares are held in physical mode.

Under the Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Members and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates. Further, the Finance Act, 2021 has inserted the provisions of Section 206AB of the Act, with effect from July 1, 2021. The provisions of Section 206AB of the Act require the Company to deduct tax at higher rates, as mentioned, from dividend amount paid/credited to Members who (a) have not filed return of income for two previous assessment years; and (b) are subjected to tax deduction/collected at source, in aggregate, amounting to Rs. 50,000 or more in each of such two years.

To enable compliance with respect to TDS, Members are requested to complete and/or update residential status, PAN, Category with their DPs or in case of shares held in physical form with the Company/Registrar and Transfer Agent, by uploading the documents on the link https://ris.kfintech.com/form15 latest by 05.00 pm (IST) on Friday, August 20, 2021.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM, which shall be circulated in due course, and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through insta poll during the AGM.

By order of the Board of Directors  
For Indian Energy Exchange Limited  
Sd/-  
Vineet Harlalka  
CFO, Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. ACS-16264

**KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED**  
Post Box No.3209, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014  
Phone: (0422) 4323800, 3083800, Fax: 91-422-2627782  
E-mail: getwell@kcmchospitals.com, Website: www.kcmchospitals.com  
CIN: L85110T21985PLC001659

Notice is hereby given that the Company has received requests from the following shareholders for issue of duplicate Share Certificates in lieu of the original ones reported lost:

Folio No.	Name of the Shareholder(s)	Share Cert. No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
KCV00238	VASANISAAL	13120	5451332-5451431	100

Any objection to the issue of duplicate Share Certificates as stated Above should be intimated to the Company's Registered Office within 15 days from the date of release of this advertisement. The Company will proceed to issue such duplicates, if no objection received.

DATE : 01/08/2021  
PLACE: CHENNAI  
S P CHITTBABU  
COMPANY SECRETARY

**KIRLOSKAR ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
Registered Office: No. 19, 2nd Main Road, Peenya 1st Stage, Phase -1, Peenya, Bengaluru - 560 058  
CIN: L31100KA1946PLC000415, Phone: 080 28397256; Fax: 080 28396727  
E mail: investors@kirloskarelectric.com; Website: www.kirloskarelectric.com

**NOTICE**

Notice is hereby given in compliance with regulation 29 read with regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, that a meeting of Board of directors of the Company will be held on Wednesday, August 11, 2021 to consider and approve, inter alia, the Ind-AS compliant unaudited financial results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2021.

This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) where the company's shares are listed & is also available on the website of the Company (www.kirloskarelectric.com).

By order of the Board,  
For Kirloskar Electric Company Limited  
K S Swapna Latha  
Sr. General Manager (Legal) & Company Secretary

**BUTTERFLY GANDHIMATHI APPLIANCES LIMITED**  
Regd. Office: 143, Pudupakkam Village, Vandalur-Kelambakkam Road, Kelambakkam - 603 103, Chengalpattu District, Tamil Nadu (M) 91500 43935; Website: www.butterflyindia.com. Email ID: cs@butterflyindia.com  
CIN NO: L28931TN1986PLC012728

**NOTICE**

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) pertaining to Equity Shares of Rs.10/- each of M/s. Butterfly Gandhimathi Appliances Limited, registered in the name of below mentioned shareholder(s), has been reported lost/misplaced/stolen and that the application(s) for issue of Duplicate Share Certificate(s) in respect thereof has been received by the Company.

Folio No.	Name of the Shareholder (s)	Share Cert. No.	Distinctive Nos.	No. of Shares
GMA01213	T.S. ANANTHA KRISHNAN	25984-25985	4217478-4217677	100
GMV00732	VUJALAKSHMI BADNEHAL VARAPRASADA REDDY BADNEHAL	35118/19/20	5130878-5131177	200
GMH00197	HARILAL LAVJI WAGHELA	14587-14588	3077778-3077977	200
GMV01012	VITTALANATHAN M	35562	5175278-5175377	100

The public are hereby cautioned against dealing in anyway with the above Share Certificate(s). If within 15 days from the date of publication hereof, no claim is received by the Company in respect of the said Share Certificate(s), Duplicate Share Certificate(s) will be issued and thereafter no claim will be entertained.

for Butterfly Gandhimathi Appliances Limited  
PRIYA VARSHINEE V M  
Deputy Company Secretary cum Compliance Officer  
PLACE : CHENNAI

**एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited**  
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)  
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)  
CIN No. L40110HP1988GO1008409

**NATHPA JHAKRI HYDRO POWER STATION**

**PRESS NOTICE, E-Tendering No. Package(W)-259(O&M)**  
Online bids (e-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are invited on behalf of SJVN Ltd. for Package (W)-259 (O&M) / 2021 - for "Welding and In-Situ Machining of 06 nos. Grooves of Guard & Service Gates of Desilting Chambers (Sealing faces, Guide faces and Sill Beam) at Dam Site, SJVN Ltd, Nathpa. For details, please visit websites www.sjvn.nic.in, https://sjvn.abcpurchase.com & www.eprocure.gov.in.

Last date for downloading of bid documents is **24.08.2021 (12:00 Hrs.)**.  
Last date for bid submission is **25.08.2021 (13:00 Hrs.)**.  
Amendment (s), if any, shall be issued on above websites only.

For and on behalf of SJVN Ltd.  
DGMP(P&C), NJHPS, SJVN Ltd.,  
Jhakri, Distt. Shimla, HP-172201

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
...व्यवसाय का प्रतीक / ...the name you can BANK upon!

Information Technology Division, HO, 5, Sansad Marg, New Delhi - 110 001  
(Email ID: itdhw@pnb.co.in, Phone: 011-23311452)

**TENDER NOTICE**

Punjab National Bank invites online bid through GeM Portal (Government e Marketplace) from eligible bidders for procurement of 52 LTO 7 tapes with 52 Barcodes.

Interested bidders may visit website https://gem.gov.in/ for details.  
Last date for online bid submission is 17.08.2021 at 1600 hrs.  
Assistant General Manager

**EAST COAST RAILWAY**

e-Tender Notice No. ETCPMIVSKP2021038 Dated.: 30.07.2021  
**Name of work:** KORAPUT-SINGAPUR ROAD DOUBLING PROJECT: SUPPLY, INSTALLATION AND INSTRUMENTATION, 3D MONITORING & CONSTRUCTION SUPERVISION OF TUNNELS FOR DOUBLING LINE I.E. TUNNEL NO. T1 (FROM CH.40500M TO 41100M), T2 (FROM CH.50990M TO 51720M), T3 (FROM CH.53110M TO 53490M), T4 (FROM CH.57680M TO 58820M) INCLUDING 4 (FOUR) MINOR BRIDGES, FORMATION IN APPROACH CUTTINGS AND OTHER ALLIED WORKS BETWEEN BAIGUDA AND LAXMIPUR SECTION OF WALTAIR DIVISION, EAST COAST RAILWAY.  
**Approx cost of the work:** ₹635.23 Lakhs.  
**Completion period of the work:** 24 (Twenty four) Months.  
**Tender Closing Date & Time:** 1200 hrs. of 23.08.2021.  
No manual offers sent by Post / Courier / Fax or in person shall be accepted against such e-tenders even if these are submitted on firm's letterhead and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.  
Complete information including e-tender documents of the above tender is available in website http://www.ireps.gov.in  
**Note:** The prospective tenderers are advised to visit the website 15 (Fifteen) days before the date of closing of tender to note any changes/corrigenda issued for this tender.  
The tenderers should read all instructions to the tenderers carefully and ensure compliance of all instructions including check lists, para 3.1 (additional check-list) of tender form (Second sheet) Annexure-I of chapter 2 of Tender documents, submission of Annexure-C duly verified and signed by Chartered Accountant.  
Chief Administrative Officer (Con)/  
PR-40/CE/21-22  
Bhubaneswar

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**  
...व्यवसाय का प्रतीक / ...the name you can BANK upon!

Information Technology Division, HO, 5, Sansad Marg, New Delhi - 110 001  
(Email ID: itdhw@pnb.co.in, Phone: 011-23311452)

**TENDER NOTICE**

Punjab National Bank invites online bids (both technical and commercial) from eligible bidders for RFP for Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for Operation, Maintenance & Testing of Automatic Fire Alarm Detection and FM-200 / NOVEC-1230 Fire Suppression System with 24\*7 Hours Manning at PNB, 5, Sansad Marg Building, New Delhi.

Interested bidders may visit our e-Procurement website https://etender.pnbnet.in or https://www.pnbindia.in for downloading the detailed RFP document. The Bids are required to be submitted online using digital certificates (Signing & encryption) through our e-Procurement system. Last date for online bid preparation and hash submission is **23.08.2021 at 1600 hrs.**, and bid re-encryption & hard copy bid submission is **24.08.2021 at 1400 hrs.**

All future communications related to RFP will be uploaded on our websites https://etender.pnbnet.in and https://www.pnbindia.in.  
Ast. General Manager

**Indian Overseas Bank**  
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002

**STANDALONE UNAUDITED (REVIEWED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021** (Rs.in lacs)

S No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2021 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2020 (Reviewed)
1.	Total income from operations	5,15,503	22,52,455	5,23,363
2.	Net Profit(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	33,386	83,971	12,463
3.	Net Profit(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33,386	83,971	12,463
4.	Net Profit(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32,664	83,147	12,069
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	N.A	N.A	N.A
6.	Equity Share Capital	18,90,241	16,43,699	16,43,699
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(1,71,284)	
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
1. Basic:		0.19	0.51	0.07
2. Diluted:		0.19	0.51	0.07

NOTE:  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com) and Bank website (www.ioib.in).  
2. The new Indian Accounting Standards (IndAS) are currently not applicable to banks in India  
DATE: 03.08.2021 S SRIMATHY AJAY KUMAR SRIVASTAVA PARTHA PRATIM SENGUPTA  
Place: Chennai EXECUTIVE DIRECTOR EXECUTIVE DIRECTOR MANAGING DIRECTOR & CEO

**NAVA BHARAT VENTURES LIMITED**  
Regd. Office: 6-3-1109/1, 'Nava Bharat Chambers', Raj Bhavan Road, Hyderabad -500 082, TELANGANA  
TEL: +91 40 23403501/40345999; e-FAX: 080 6688 6121  
E-mail: investorservices@nbv.in, www.nbvventures.com  
CIN : L27101TG1972PLC001549

**NOTICE OF 49th ANNUAL GENERAL MEETING ALONG WITH E-VOTING AND OTHER INFORMATION**

NOTICE is hereby given that, pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) on January 13, 2021 and January 15, 2021 respectively allowing the companies to hold their annual general meetings through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) with effect from April 15, 2020 (SEBI Circulars), to transact the business, as set out in the Notice of 36th AGM. In pursuance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copy of the Notice convening the 36th AGM and the Annual Report of the Company, for the financial year 2020-21 and other documents, will be sent only by email to the Members of the Company to the email address registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited/ Depository Participants. These documents will also be available on the website of the Company at www.rupa.co.in, the website of stock exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice of 36th AGM will also be available on the website of the National Securities Depositories Limited at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 36th AGM by electronic means ("e-voting") and the business set out in the Notice of 36th AGM will be transacted through e-voting. The Company has engaged NSDL to provide the facility of remote e-voting to the Members and the facility of e-voting to the Members participating in the 36th AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. The process and manner of remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during 36th AGM, for Members holding shares in demat form or physical form and for Members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of the 36th AGM.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company or RTA and who wish to receive through email, the Notice of 36th AGM and the Annual Report of the Company and other documents and for obtaining Used ID and Password to participate in the 36th AGM through VC/OAVM and vote through e-voting system in the 36th AGM or through remote e-voting, can get his/her/its email address registered by submitting scanned copy of: (i) a signed request letter mentioning name, email address, folio number; and (ii) self-attested scanned copy of the PAN Card; and (iii) any address proof document of the Member (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Card, Passport, Aadhar Card), to the email address, investors@rupa.co.in.

Members holding shares in physical form, may send their mandates, for receiving dividend amount directly into their bank account through any RBI approved electronic mode of payments, by sending email to investors@rupa.co.in by submitting scanned copy of: (1) a signed request letter mentioning your name, folio number, complete address, with details relating to bank account in which the dividend is to be received, i.e., (a) Name and Branch of Bank and Bank Account type; (b) Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; (c) 11 digit IFSC Code; (2) self-attested cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly; (d) self-attested copy of the PAN Card; and (e) self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company. Alternatively, such Member can also submit requisite documents to the RTA, in the form and manner informed to be informed by the RTA.

However, in case the Company is unable to pay the dividend to any Member directly in their bank accounts through the RBI approved electronic means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the Dividend Warrant/Bankers' Cheque/Demand Draft to such Member.

Members holding shares in dematerialised form, should update his/her/ its email address and Electronic Bank Mandate directly with their respective Depository Participant/s.

For Rupa & Company Limited  
Sd/-  
Kundan Kumar Jha  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS 17612

DATE: 03.08.2021  
Place: Hyderabad

**THE RUBBER PRODUCTS LIMITED**  
Corporate Identity Number (CIN): L25100MH1965PLC013379  
Registered Office: Plot-C 44, Road No.28, Wagale Industrial Estate, Thane - 400 604 Maharashtra, India  
Tel.: 91-22-2582 2553; Fax: 91-22-2582 0876  
Website: www.rubpro.com; E-mail: rpl@rubpro.com

To whom so ever it may concern, this is to inform you that, The Rubber Products Limited ("the Company") bearing CIN- L25100MH1965PLC013379 was incorporated on 09/12/1965 under the provisions of the Companies Act, 1956 and Listed at BSE Limited since 04/07/1994 and currently its shares are suspended from trading w.e.f. 19/07/2017. Pursuant to National Company Law Tribunal, Mumbai Bench ("NCLT") order dated 19.02.2019 read with National Company Law Appellate Tribunal, New Delhi ("NCLAT") order dated 11.06.2019, the Company has cancelled 40,88,400 equity shares of Rs.10 each of all previous shareholders including all rights & privileges and issued & Allotted fresh 40,88,400 equity shares of Rs.10 each to the new Seven Promoter Shareholders as specified by NCLT and duly approved by BSE on May 19, 2020.

The Company is a loss making unit since it was acquired by the new promoters/management. The Company has a large volume of accumulated losses and its net worth has been eroded to a great extent. Further, there is no public shareholding in the Company and 100% shareholding belongs to new Promoter Shareholders i.e. Sabharwal Group, hence, the promoters/acquirers understands that, delisting of the equity shares of the company from BSE Limited is ultimate practical move, financially.

Subsequently, an application has been made to Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to sought certain exemptions/relaxations from mandatory procedures and compliances for Voluntary Delisting under Regulation 25A of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 [w.e.f. June 10, 2021, SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 have been notified], SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 have been notified, SEBI vide its Order No. WTM/SKM/CFD/DCR2/41/ 2020-21 dated July 15, 2021 under section 11(1) and 11B of the SEBI Act read with Regulation 42 of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 has granted certain exemptions/relaxations from the applicability of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 like dealing with Exit Opportunity, requirement of achievement of Minimum Public Shareholding, Provisions of Escrow Account, Right of shareholders to participate in the reverse book building process etc., subject to conditions specified therein.

The Company is 100% Promoters held and is seeking delisting from BSE Limited, the only stock exchange where equity shares of the Company are listed as per conditions specified in SEBI order. Details of new promoter shareholders are available in the shareholding tab of BSE website at www.bseindia.com and Company website at www.rubpro.com

Necessary formalities for processing the delisting are underway as per the conditions, directions provided in SEBI Order and SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021. SEBI order is available on SEBI website at www.sebi.gov.in/enforcement/orders. BSE website at www.bseindia.com and Company website at www.rubpro.com

For The Rubber Products Limited  
Sd/-  
Jagmeet Singh Sabharwal  
Promoter

DATE: 02-08-2021  
Place: Mumbai

**RUPA RUPA & COMPANY LIMITED**  
CIN: L17299WB1985PLC038517  
REGD. OFFICE: Metro Tower, 8th Floor  
1, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata - 700 071  
PHONE: +91 33 40573100; FAX: +91 33 22881362  
E-MAIL: connect@rupa.co.in; WEBSITE: www.rupa.co.in

**NOTICE REGARDING 36TH AGM TO BE HELD THROUGH VC/OAVM FACILITY**

The Thirty-Sixth (36th) Annual General meeting ("AGM") of Rupa & Company Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 31st day of August, 2021 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), in view of the Covid-19 pandemic, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 2/2021 dated January 13, 2021 read with Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("SEBI Circulars"), to transact the business, as set out in the Notice of 36th AGM.

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copy of the Notice convening the 36th AGM and the Annual Report of the Company, for the financial year 2020-21 and other documents, will be sent only by email to the Members of the Company to the email address registered with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited/ Depository Participants. These documents will also be available on the website of the Company at www.rupa.co.in, the website of stock exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice of 36th AGM will also be available on the website of the National Securities Depositories Limited at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 36th AGM by electronic means ("e-voting") and the business set out in the Notice of 36th AGM will be transacted through e-voting. The Company has engaged NSDL to provide the facility of remote e-voting to the Members and the facility of e-voting to the Members participating in the 36th AGM through VC/OAVM. The Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. The process and manner of remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and e-voting during 36th AGM, for Members holding shares in demat form or physical form and for Members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of the 36th AGM.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company or RTA and who wish to receive through email, the Notice of 36th AGM and the Annual Report of the Company and other documents and for obtaining Used ID and Password to participate in the 36th AGM through VC/OAVM and vote through e-voting system in the 36th AGM or through remote e-voting, can get his/her/its email address registered by submitting scanned copy of: (i) a signed request letter mentioning name, email address, folio number; and (ii) self-attested scanned copy of the PAN Card; and (iii) any address proof document of the Member (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Card, Passport, Aadhar Card), to the email address, investors@rupa.co.in.

Members holding shares in physical form, may send their mandates, for receiving dividend amount directly into their bank account through any RBI approved electronic mode of payments, by sending email to investors@rupa.co.in by submitting scanned copy of: (1) a signed request letter mentioning your name, folio number, complete address, with details relating to bank account in which the dividend is to be received, i.e., (a) Name and Branch of Bank and Bank Account type; (b) Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions; (c) 11 digit IFSC Code; (2) self-attested cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly; (d) self-attested copy of the PAN Card; and (e) self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company. Alternatively, such Member can also submit requisite documents to the RTA, in the form and manner informed to be informed by the RTA.

However, in case the Company is unable to pay the dividend to any Member directly in their bank accounts through the RBI approved electronic means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the Dividend Warrant/Bankers' Cheque/Demand Draft to such Member.

Members holding shares in dematerialised form, should update his/her/ its email address and Electronic Bank Mandate directly with their respective Depository Participant/s.

For Rupa & Company Limited  
Sd/-  
Kundan Kumar Jha  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS 17612

DATE: 03.08.2021  
Place: Kolkata

**Business Standard**  
newspaper delivering safely to homes and offices  
For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in  
Business Standard  
Insight Out